

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

JBML/SE/Q1/2026-27

May 20, 2026

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051

BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: JAYBARMARU

Scrip Code: 520066

Sub: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements of Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) dated May 20, 2026 for the publication of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for Fourth Quarter and Financial Year ended March 31, 2026 as approved by the Board of Directors in its meeting held on May 19, 2026.

This is for your information and record please.

Thanking you,

For **Jay Bharat Maruti Limited**

Shubha Singh
Company Secretary
ICSI M. No. A16735

Encl.: As stated above

इंडियन बैंक Indian Bank (NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002 READ WITH RULE 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002)

ALLAHABAD DEMAND NOTICE

I being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notices cannot be served ordinarily as attempted earlier except through this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amounts due against each of you, as mentioned below, within 60 days. Thereafter the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. **Needless to mention here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you.**

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Details of Security/Movable/Immovable properties	Date of Demand Notice	Due Amount / date of Notice
1.	Branch: MDA, Meerut 1. M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. (Borrower), Registered address :- H. No. E 47 Shashi Garden Gali No. 7 Mayur Vihar Ph I Patparganj-110091. Corporate Office Address: F-1, Tirupati Plaza Bachha Park Meerut -250002. Unit Address: Pant road Subhash Nagar Cement town Chaura Pauri Garhwal Near Tripalsain Jhangroli Paboo -246164. 2. Shri. Rajveer Bhatti s/o Late Sh. Baburam (Director/Guarantor/Mortgagor) C/o M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. Address: H. No. E 47 Shashi Garden Gali No. 7 Mayur Vihar Ph I Patparganj-110091. 3. Shri Manohar Lal Chopra s/o Chaudhary Ram Chopra (Director/Guarantor) C/o M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. Address: H. No. 3F Navkala Apartments Delhi-110092. Also at: E-601, Street No. 10, Shanti Marg, West Vinod Nagar, Madawali, East Delhi-110052. Also at: Village Kalanaur Opp. Prima School Chhoia Pana Rohatk Khurd Part 127 Haryana-124113. 4. Shri Gajraj Singh s/o Sh. Surat Singh (Director/Guarantor) C/o M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. Address: H. No. A-704 Budd Marg Madawali Fazalpur Snakarpur East Delhi-110092. Smt. Jaspali w/o Late Sh. Baburam Bhatti (Guarantor/Mortgagor) C/o M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. Address: H. No. E 47 Shashi Garden Gali No. 7 Mayur Vihar Ph I Patparganj-110091.	Security No. 1. All that part & parcel of a Residential Plot No. 21, Block C Village Kasna in the layout plan of Greater Noida Industrial area Dist Gautam Buddha Nagar admeasuring 820.00 sq mtrs as per lease deed bearing No. Regn No 17002 in Book No I Vol No 18559 on pages 273 to 310 dated 30.07.2015 and having boundaries as per Lease Deed as follows: East: Plot No. 24 and 25, West: 7.50 m wide Road, North: Plot No. 22, South: Plot No. 20. Owner/ Title holder: Sh. Rajveer Bhatti s/o Sh. Babu Ram and Smt. Jaspali w/o Sh. Babu Ram both R/O	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 04.05.2026 for Rs. 2,45,10,021/- together with interest and other charges from this date 04.05.2026 till the date of repayment.	Rs. 2,45,10,021/- together with interest and other charges from this date 04.05.2026
		Security No. 2. Hypothecated stocks, Book Debts, receivables, movables and other current assets of the firm (M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd), both present and future. Owner/Title holder: M/s BRB Road Buildtech Pvt Ltd. Registered address :- H. No. E 47 Shashi Garden Gali No. 7 Mayur Vihar Ph I Patparganj-110091. Corporate Office Address: F-1, Tirupati Plaza Bachha Park Meerut -250002. Unit Address: Pant road Subhash Nagar Cement town Chaura Pauri Garhwal Near Tripalsain Jhangroli Paboo -246164.	Date of NPA - 30.06.2025 (Marked NPA on 29.04.2026)	

Date: 19.05.2026 Place: Meerut Authorised Officer

HDFC BANK Head Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013 • Regional Office: HDFC Bank Ltd, Dept For Special Operations, Ground Floor, Gulab Bhawan, 6, Bhadur Shah Zafar Marg ITO, New Delhi 110002

E-AUCTION SALE NOTICE PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) that, the Authorized Officer(s) of HDFC BANK LTD. had taken physical possession of the following properties pursuant to demand raised vide notice(s) issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in the following loan accounts with right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, AS IS WHAT IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the said properties. The sale of the below-mentioned Properties shall be conducted by way of E-Auction through Web Portal: <https://www.bankauction.com>

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES/DETAILS OF ACCOUNT/AMOUNT/EMD/ETC

Name of the Branch & Account	Name of the Mortgagor & Guarantors of the property	Details of property	Amount as per Demand Notice Demand Notice Date	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Inspection Date Date and Time
HDFC Bank Ltd, Delhi	Mortgagor/Proprietor/ Guarantor: Mr. Ravinder Kumar Kharbada and Mrs. Romy Kharbada.	Item No. 1 Property No. Residential Flat no. DDA Freehold MIG Flat No. 62C, Second Floor, Block AN, Shalimar Bagh, New Delhi - 110088	Rs. 1,92,84,890.25/- Date of Demand Notice: 16-02-2023 Dues as on 16.02.2023 with further interest along with the costs and expenses till the date of full and final payment under the Loan account	Rs. 1,45,00,000/- Rs. 14,50,000/- Rs. 1,00,000/-	18.06.2026 11.30 AM to 12.30 PM
M/s D.F.A. Fruits	Mortgagor/Proprietor/ Guarantor: Mr. Somnath Pandey	Property No. Residential Flat no. DDA Freehold MIG Flat No. 62C, Second Floor, Block AN, Shalimar Bagh, New Delhi - 110088	Rs. 1,92,84,890.25/- Date of Demand Notice: 16-02-2023 Dues as on 16.02.2023 with further interest along with the costs and expenses till the date of full and final payment under the Loan account	Rs. 1,45,00,000/- Rs. 14,50,000/- Rs. 1,00,000/-	18.06.2026 11.30 AM to 12.30 PM

Terms and Conditions:

- The Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, AS IS WHAT IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"
- The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: <https://hdfcbank.auction.com> (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with <https://hdfcbank.auction.com> through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT / RTGS in the following Account: 5750000904261. Name of the Account: DFSD TRANSITORY ACCOUNT, Name of the Beneficiary: HDFC BANK LTD., IFSC Code: HDFC0000240 or through Demand Draft drawn in favour of HDFC Bank Ltd Account No. 5750000904261 latest by 4.00 PM on or before the dates mentioned in the table above. Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount.
- To the best of knowledge and information of the Authorized Officer(s), there is no encumbrance or claims except as disclosed as per Bank's record with respect to the Properties including statutory dues like property taxes, society dues etc. The Bank however shall not be responsible for any outstanding statutory dues/ encumbrances/ Municipal Corporation Dues/ electricity dues, charges/tax arrears etc. if any and it will be liability of the buyer. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of Properties & to inspect & satisfy themselves. Properties can be inspected strictly on the above mentioned date and time.
- The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact our service provider M/s. C1 India Pvt. Ltd., Plot No 301, Gulf Petro Chem Building, Udyog Vihar, Phase 2, Gurgaon. Helpline No's: 0124-4302020/21222324, Mr. Mithlesh Kumar Mobile: 7080804466, Help Line e-mail ID: support@bankauction.com and for any property related query may contact the Authorized officer as mentioned above in office hours during the working days, (10:00 AM to 5:00 PM).
- The highest bid shall be subject to approval of HDFC Bank Limited. Authorized Officer reserves the right to accept/ reject all or any of the offers/ bids so received without assigning any reasons whatsoever. His decision shall be final & binding.
- The prospective bidder should take cognizance of all the litigation with respect to the property in auction including Securitization Application, if any filed before Debt Recovery Tribunal. He should inquire all the case with respect to the property in auction, independently and take cognizance of it prior to submission of bid.
- (FOR DETAILED TERM AND CONDITIONS PLEASE REFER TO OUR WEBSITE www.hdfcbank.com and www.bankauction.com)

Date: 20.05.2026 Place: Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

PUBLIC ANNOUNCEMENT (In accordance with Section 102 of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. HARVINDER SINGH SIKKA, PERSONAL GUARANTOR / DEBTOR

Relevant Particulars

- Name of the Personal Guarantor: Mr. Harvinder Singh Sikka (DIN 03045161)
- Address of the Personal Guarantor: Residential Add: C-23, Preet Vihar, Shakar Pur Baramad, Delhi-110092 Business Add: C-60, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092
- Details of Order & Insolvency commencement date in respect of Personal Guarantor: Hon'ble NCLT, New Delhi, Court-II admitted the Insolvency Resolution Process against Mr. Harvinder Singh Sikka, Personal Guarantor to Kindle Infraheights Private Limited ("Corporate Debtor") (CIN U70100DL2011PTC215638) vide Order dated 05.11.2024 in CP (IB)-129(PB)/2022
- Name and registration number of the insolvency professional acting as Resolution Professional: Hemant Sethi IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 (Copy of order received on 28.04.2026)
- Date of Commencement of Insolvency Resolution Process: 20.04.2026 (Copy of order received on 28.04.2026)
- Address and e-mail of the Resolution professional: Correspondence Address: C-12846 Sushant Lok-Phase 1, Gurugram (Haryana-122002) Block No. IB, House No. 8-C, Ashok Vihar, Phase-1, Opp. Sports Complex, North West Delhi, 110052 Email: hemantsethi60@gmail.com
- Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional: Office Add: AAA House, 64, near Modi Mill, Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 Email: gurinder.singh.sikka@ibbi.gov.in hemantsethi60@gmail.com
- Last date for submission of claims: 10.06.2026
- Relevant Forms in which claim to be filed, form available at: "Form B" under Sr. No. 5 at IBI website in downloads section Web link: <https://ibi.gov.in/home/downloads>

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Court-II has ordered the commencement of Insolvency Resolution Process of Mr. Harvinder Singh Sikka, Personal Guarantor on 20.04.2026 (Copy of order received on 28.04.2026). The creditors of Mr. Harvinder Singh Sikka, are hereby called upon to submit their claims in Form B complete in all respect with proof on or before 10.06.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned in serial no. 7 of above table. Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties. Hemant Sethi Resolution Professional in the matter of Mr. Harvinder Singh Sikka, Personal Guarantor/Debtor IBI Regn no. IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 AFA valid up to 30.06.2026 Date: 20.05.2026 Place: New Delhi

PUBLIC ANNOUNCEMENT (In accordance with Section 102 of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. GURINDER SINGH SIKKA, PERSONAL GUARANTOR / DEBTOR

Relevant Particulars

- Name of the Personal Guarantor: Mr. Gurinder Singh Sikka (DIN 03045161)
- Address of the Personal Guarantor: Residential Add: C-23, Preet Vihar, Shakar Pur Baramad, Delhi-110092 Business Add: C-60, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092
- Details of Order & Insolvency commencement date in respect of Personal Guarantor: Hon'ble NCLT, New Delhi, Court-II admitted the Insolvency Resolution Process against Mr. Gurinder Singh Sikka, Personal Guarantor to Kindle Infraheights Private Limited ("Corporate Debtor") (CIN U70100DL2011PTC215638) vide Order dated 20.04.2026 in CP (IB)-130(PB)/2022
- Name and registration number of the insolvency professional acting as Resolution Professional: Hemant Sethi IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 (Copy of order received on 28.04.2026)
- Date of Commencement of Insolvency Resolution Process: 20.04.2026 (Copy of order received on 28.04.2026)
- Address and e-mail of the Resolution professional: Correspondence Address: C-12846 Sushant Lok-Phase 1, Gurugram (Haryana-122002) Block No. IB, House No. 8-C, Ashok Vihar, Phase-1, Opp. Sports Complex, North West Delhi, 110052 Email: hemantsethi60@gmail.com
- Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional: Office Add: AAA House, 64, near Modi Mill, Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 Email: gurinder.singh.sikka@ibbi.gov.in hemantsethi60@gmail.com
- Last date for submission of claims: 10.06.2026
- Relevant Forms in which claim to be filed, form available at: "Form B" under Sr. No. 5 at IBI website in downloads section Web link: <https://ibi.gov.in/home/downloads>

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Court-II has ordered the commencement of Insolvency Resolution Process of Mr. Gurinder Singh Sikka, Personal Guarantor on 20.04.2026 (Copy of order received on 28.04.2026). The creditors of Mr. Gurinder Singh Sikka, are hereby called upon to submit their claims in Form B complete in all respect with proof on or before 10.06.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned in serial no. 7 of above table. Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties. Hemant Sethi Resolution Professional in the matter of Mr. Gurinder Singh Sikka, Personal Guarantor/Debtor IBI Regn no. IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 AFA valid up to 30.06.2026 Date: 20.05.2026 Place: New Delhi

exicom beautifully engineered™

EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan - 173213, Himachal Pradesh, India Telephone: +91 124 6615 200, Email: investors@exicom.in. Website: www.exicom.com CIN: L64203HP1994PLC014541

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors at its meeting held on May 19, 2026, approved the Audited Financial Results of the Company ("Financial Results"), for the Fourth Quarter and Financial Year ended March 31, 2026, both on Standalone & Consolidated basis. The Financial Results along with the Auditors' Report (Standalone & Consolidated), are available on the Company's website at www.exicom.com and on the websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Financial Results can also be accessed by scanning QR code:

By the order of the Board For Exicom Tele-Systems Limited Sd/- Anant Nahata Managing Director & CEO DIN: 02216037

Date: May 19, 2026 Place: Gurugram

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33, read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

JAY BHARAT MARUTI LIMITED (CIN: L29130HR1987PLC130020) Registered Office: Pace City II, Mohammadpur Jharsa, Near Khandsa Village, Sector-36, Khandsa Road, Gurgaon, Haryana - 122001 T: +91 124 4767800; F: +91 124 4032011 Email: jbm.investor@jbmgroup.com Website: <https://www.jbmgroup.com>

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to regulation 6 of the Securities and exchange board of India (Delisting of equity shares) Regulations 2021, and other applicable provisions, that in continuation of applications to Calcutta Stock Exchange (CSE) for delisting of its equity shares in the years 2003 as approved by the member of the company on 16th Annual General Meeting held on 21st August, 2003, Jay Bharat Maruti Limited ("Company") is in the process of making Re-application of voluntary delisting of its equity shares from the Calcutta stock exchange limited ("The company") only as approved by the board of directors on 19th May, 2026. However, Equity Shares of the company will be continuing to be listed on the stock exchange having nationwide terminal i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Ltd. ("BSE").

Necessity and objective of the Delisting:

Pursuant to the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, the equity shares of the company may be delisted from the Calcutta stock exchange (CSE), as the shares continue to remain listed on the NSE and the BSE. There has been no trading activity in the company's equity shares on the CSE for the several years, as such, continued listing on the CSE does not provide any meaningful benefit to investors. On the contrary, it results in avoidable compliance and listing costs of the Company. The proposed delisting from the CSE will not prejudice the interest of the shareholders as the will continue to be listed and traded on NSE & BSE, which offer nationwide trading platforms with adequate liquidity.

For Jay Bharat Maruti Limited Sd/- Shubha Singh Company Secretary

Date: 19.05.2026 Place: Gurgaon

New Tirupur Area Development Corporation Ltd. "Polyhose Towers" 1st Floor, No: 86, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032

NOTICE INVITING TENDER

Tenders are invited in two cover (Technical Bid & Price Bid) system for Procurement, Construction and Commissioning of Combined Water Supply Scheme for providing 35 MLD to SIPCOT Defense Industrial Park, Varapatti, 2.0 MLD to TIDCO Aerospace Industrial Park, Sular and 3.0 MLD to TIDCO Semi-Conductor Industrial Park, Kethanur from NTADCL Water Distribution Station (WDS-24) Murugampalayam, Tirupur.

Approx. value of work Rs.in Lakhs	EMD Rs. in Lakhs	Contract Period	Sale of Bid Document	Date & Time of Pre-Bid Meeting	Due Date & Time for submission of Bids
6520.00	48.90	18 Months	19.05.2026	05.06.2026 & 11:00 AM	17.06.2026 & 3:00 PM

Tender Bid Documents can be obtained from: <https://tenders.gov.in/> / www.ntadcl.com

For further details, please contact: The Chief Technical Officer, New Tirupur Area Development Corporation Ltd., Kumaran Commercial Complex, First Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601, Tamilnadu. Phone : 0421-2486864 / 2481165. Email: tender@ntadcl.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT (In accordance with Section 102 of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MRS. SUNITA BANSAL, PERSONAL GUARANTOR / DEBTOR

Relevant Particulars

- Name of the Personal Guarantor: Mrs. Sunita Bansal
- Address of the Personal Guarantor: Rio F-91/1 1st Floor Modern Town-II Delhi-110009
- Details of Order & Insolvency commencement date in respect of Personal Guarantor: Hon'ble NCLT, New Delhi Bench-VI admitted the Insolvency Resolution Process against Mr. Mrs. Sunita Bansal, Personal Guarantor to M/s Saurabh (India) Pvt. Ltd. (Corporate Debtor) vide order dated 08.05.2026 (Order received on 13.05.2026).
- Name and registration number of the insolvency professional acting as Resolution Professional: Mr. Hemant Sethi IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628
- Date of Commencement of Insolvency Resolution Process: 08.05.2026 (Order received on 13.05.2026)
- Address and e-mail of the Resolution professional: Correspondence Address: C-12846 Sushant Lok-Phase 1, Gurugram (Haryana-122002) Block No. IB, House No. 8-C, Ashok Vihar, Phase-1, Opp. Sports Complex, North West Delhi, 110052 Email: hemantsethi60@gmail.com
- Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional: AAA House, 64, near Modi Mill, Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 Email: sunitabansal@ibbi.gov.in hemantsethi60@gmail.com
- Last date for submission of claims: 10.06.2026
- Relevant Forms in which claim to be filed, form available at: "Form B" under Sr. No. 5 at IBI website in downloads section Web link: <https://ibi.gov.in/home/downloads>

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi VI has ordered the commencement of Insolvency Resolution Process of Mrs. Sunita Bansal, Personal Guarantor vide order dated 08.05.2026. The creditors of Mrs. Sunita Bansal, are hereby called upon to submit their claims in Form B complete in all respect with proof on or before 10.06.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry no. 7 of above table. Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties. Sd/- Hemant Sethi Resolution Professional in the matter of Mrs. Sunita Bansal, Personal Guarantor/Debtor IBI Regn no. IBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 AFA valid up to 30.06.2026 Date: 20.05.2026 Place: New Delhi

ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED CIN: L21011OR1936PLC000117 Regd. Office: Unit VIII, Plot No 7, Bhoingar, Bhubaneswar - 751012 (Odisha) Ph: (0674) 2396930

Principal Office: Birla Building, 9th floor, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001 (WB) Ph: +91 33 4082 3700/2220 0600 | Email: cosec@opli.in | Website: www.orientpaper.in

Transfer of Unclaimed Dividend and corresponding Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

The shareholders are hereby informed that Unpaid Final Dividend for the financial year 2018-19 and the corresponding equity shares of the Company in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more shall be due for transfer to the demat account of the EPF Authority on 25th August, 2026, pursuant to the provisions of section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, advising them to claim their unclaimed dividends by 24th August, 2026. The Company has uploaded details of the concerned shareholders on its website www.orientpaper.in. The shareholders may, even upon transfer, claim the said shares along with dividend(s) from IEPF Authority for which detailed procedures are available at www.iepf.gov.in. The shareholders may communicate to the RTA of the Company, KFin Technologies Ltd. Unit: ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032, Toll free no. 1800 309 4001, Email: enward.ris@kfinetech.com. Website: www.kfinetech.com or may mail to the Company at cosec@opli.in.

For ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED Sd/- R. P. Dutta Company Secretary

Kolkata, 19th May, 2026

PUBLIC NOTICE

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051 Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059 Branch Address: 1st floor, XVI / 10200, 13/30 Seeton Pura, Pradam Singh Road, Karol Bagh, Delhi-110005. Branch Address: 2nd floor, SCO-319, Sec -29, Gurgaon, Haryana - 122001

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from ICICI Home Finance Company Limited ("ICICI HFC") and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Property Address of Secured Asset/ Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1.	Harihar Yadav (Borrower), Prema Yadav (Co-Borrower), Dhmaspur Near Gas Plant Badshapur Gurgaon 122101 Haryana, LHGUI00001555941	Khwat/Khata No.17/17, Mu. No. 16 Ka Kila No. 10(8-0), Khwat/Khata No. 352/418, Mu. No. 15 Ka Kila No. 6/1(7-11), Khwat/Khata No. 25/25, Mu. No. 16 Ka Kila No. 9/2 (3-8), Kita 3 Raqa 18 Kanol, 19 Marla Aarji Ka 32/3411 Part,Raqa 0 Kanaal 3 Marla 5 Sarsai, (109 Yrds.) Muzo Bhondsi, Tahsil Sohna, District Gurgaon-122001 Haryana. Bounded By: North By: 25.3 Ft And 20 Ft Wide Road, South By: 25.3 Ft And Arozi Deegar Malik, East By: 38.9 Ft Arozi Deegar Malik, West By: 38.9 Ft Arozi Deegar Malik.	14-05-2026 Rs. 27,11,972.07/-	11-05-2026
2.	Bhupender Gupta (Borrower), Shikha (Co-Borrower), House No 529 21 Old House No 811 41 Gali No 14 Baldev Nagar Gangagiri Gurgaon Gurgaon 122001 Haryana, LHDKB00001632349	House No. 811/14 Old (New No. 529/21), Khadra No. 1164 Waka Sivana Mauja Gurugram, Haal Abad Colony Baldev Nagar (Madanpur), Hadood Nagar Nigum Gurugram, Tehsil And District Gurugram - 122001 Haryana Raqwa 50 Sq. Yrds. Covered Area450 Sq. Ft. Bounded By: North By: 12 Ft 6 Inch Road, South By: 12 Ft 6 Inch Madan Mohan, East By: 36ft. House S.S. Kalra, West By: 36 Ft. Deegar Plot.	14-05-2026 Rs. 69,267.64/-	11-05-2026
3.	Bhupender Gupta(Borrower), Shikha. (Co-Borrower), House No 529 21 Old House No 811 41 Gali No 14 Baldev Nagar Gangagiri Gurgaon Gurgaon 122001 Haryana, LHDKB00001632351	House No. 811/14 Old (New No. 529/21), Khadra No. 1164 Waka Sivana Mauja Gurugram, Haal Abad Colony Baldev Nagar (Madanpur), Hadood Nagar Nigum Gurugram, Tehsil And District Gurugram - 122001 Haryana Raqwa 50 Sq. Yrds. Covered Area450 Sq. Ft. Bounded By: North By: 12 Ft 6 Inch Road, South By: 12 Ft 6 Inch Madan Mohan, East By: 36ft. House S.S. Kalra, West By: 36 Ft. Deegar Plot.	14-05-2026 Rs. 31,33,000/-	11-05-2026
4.	Bhupender Gupta (Borrower), Shikha. (Co-Borrower), House No 529 21 Old House No 811 41 Gali No 14 Baldev Nagar Gangagiri Gurgaon Gurgaon 122001 Haryana, LHDKB00001639889	House No. 811/14 Old (New No. 529/21), Khadra No. 1164 Waka Sivana Mauja Gurugram, Haal Abad Colony Baldev Nagar (Madanpur), Hadood Nagar Nigum Gurugram, Tehsil And District Gurugram - 122001 Haryana Raqwa 50 Sq. Yrds. Covered Area450 Sq. Ft. Bounded By: North By: 12 Ft 6 Inch Road, South By: 12 Ft 6 Inch Madan Mohan, East By: 36ft. House S.S. Kalra, West By: 36 Ft. Deegar Plot.	14-05-2026 Rs. 8,85,303.78/-	11-05-2026

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: May 20, 2026 Place: Gurgaon

Authorized Officer ICICI Home Finance Company Limited

JBM GROUP Our milestones are touchstones

JAY BHARAT MARUTI LIMITED Regd. Office: Pace City II, Mohammadpur Jharsa Near Khandsa Village, Sector-36 Gurugram, Haryana- 122001 Phone No.: 011-26427104; Fax: 011-26427100 Website: www.jbmgroup.com CIN No.: L29130HR1987PLC130020

STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31/03/2026	Twelve Months Ended 31/03/2026	Quarter Ended 31/03/2026	Twelve Months Ended 31/03/2026	Quarter Ended 31/03/2026
		AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
1.	Total Income from operations	76,697.57	2,55,391.21	61,128.57	76,697.57	2,55,391.21
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,531.80	14,716.74	2,914.25	5,625.00	14,958.20
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,531.80	14,716.74	2,914.25	5,625.00	14,958.20
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,885.79	13,786.26	1,960.25	7,959.11	13,967.43
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	7,409.34	13,925.02	2,072.29	7,484.86	14,107.68
6.	Equity share capital	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00
7.	Reserves as shown in the Audited Balance Sheet	66,921.94	66,921.94	53,754.67	67,446.61	67,446.61
8.	Earning per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations)					
a)	Basic	7.28	12.74	1.81	7.35	12.90
b)	Diluted	7.28	12.74	1.81	7.35	12.90

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2026 are available on the websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website at www.jbmgroup.com.
- The Board at its meeting held on May 19, 2026 has recommended a dividend @ 35% i.e. Rs 0.70 per share (on fully paid up equity share of Rs. 2/- each) for the year ended March 31, 2026.

Place :- Gurugram Dated :- 19th May, 2026

Scan the QR Code to view the results on the website of the company.

By Order of the Board FOR JAY BHARAT MARUTI LIMITED Sd/- S.K. ARYA CH

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इण्डियन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
 ई-नीलामी विक्री सूचना

सम्पति 15-श्री अजय तिवारी (आवेदक) तथा श्री पल्लव तिवारी (गारंटर)
 ऋण सं.: 311000004167

सम्पति का विवरण

संपत्ति का पूरा विवरण:- निर्मित संपत्ति का पहला मंजिला (साइड का हिस्सा), जिसमें छत/टेरेस के अधिकार शामिल नहीं हैं, इसका म्युनिसिपल नंबर डब्ल्यूजेड-बी-36-ए है और इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (यानी 41.81 वर्ग मीटर) है। यह संपत्ति खसरा नंबर 23/7 का हिस्सा है और गौरी पोसांगीपुर के राजस्व क्षेत्र में स्थित है, जिसे 'राम दत्त एन्क्लेव', उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर में: किसी अन्य की संपत्ति, दक्षिण में: किसी अन्य की संपत्ति; पूर्व में: गली; पश्चिम में: सड़क।

मांग सूचना की तिथि: 12.07.2019
 मांगकृत राशि: रु. 31,14,118.28 तथा भावी ब्याज, लागत और व्यय

कच्चे की तिथि (पी): भौतिक कच्चा -17.02.2020
 आरंभित मूल्य: रु. 22,60,000/- (रुपये बाईस लाख साठ हजार मात्र)

इंफॉर्मेशन: रु. 2,26,000/- (रुपये दो लाख छब्बीस हजार मात्र)

20.05.2026 तक कुल देय राशि:-
 रु. 81,85,509.24 (रुपये इक्यासी लाख पचासी हजार पांच सौ नौ और चौबीस पैसे मात्र)

सम्पक व्यक्ति: श्री अविनव कुमार
 सम्पक विवरण: मो.: 9434115454

संपत्ति दस्तावेजों की फोटोकॉपी के निरीक्षण की तिथि एवं समय:-
 दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु संपत्ति का पता:-
 02.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप. के बीच
 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इण्डियन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

संपत्ति का निरीक्षण: 02.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.

सेवा प्रदाता से ई-नीलामी के सम्पक विवरण:
 ई-नीलामी सेवा प्रदाता का पता, डीएसि व्यक्ति का नाम, ईमेल और सम्पक विवरण:- मेसर्स 4 क्लोजर: वेबसाइट का नाम: <https://bankauctions.in> तथा www.foreclosureindia.com, निजी वेबसाइट: Oix.in; कार्यालय ईमेल: info@bankauctions.in; कार्यालय का पता: मेसर्स 4 क्लोजर, # 605 ए, छठी मंजिला, मैत्रीवन, एचएमडीए, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038, तेलंगाना; हेल्पलाइन डेस्क: लैडलाइन: 040-23736405 वा 814200062/66; टी. जवा इकाश रेड्डी, प्रबंधक - संचालन, मोबाइल नंबर: 8142000064, ईमेल आईडी: prakash@bankauctions.in

ऑनलाइन निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथि: तिथि और समय:- 04.06.2026 को 5:00 बजे अप. तक

ई-नीलामी की तिथि: नीलामी की तिथि और समयवधि:- 06.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 2:00 बजे अप. तक

सभी नियम एवं शर्तें आधिकारिक वेबसाइट <https://online.lichousing.com/auaction/> पर अनुलग्नक 2 के रूप में उल्लिखित हैं।
 सरकारी अधिनियम 2002 के तहत 15 दिनों की वैधानिक विक्री सूचना हस्ता./-
 दिनांक: 20.05.2026 स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

PUBLIC NOTICE
 My client, are in talks with Mr. Kulvinder Singh and Mrs. Harpreet Kaur for the purchase of the Entire Upper Ground Floor of Freehold Built-up Property bearing No. G-143 Plot No. 143 in Block-G, built on land measuring 193.33 square yards (161.64 square metres) in the layout of the State Bank of India Employees Co-operative House Building Society Ltd., colony presently known as State Bank Colony, G.T. Karnal Road, Delhi-110009, together with undivided twenty-five per cent rights in the still car parking and undivided twenty-two point five per cent share in the land underneath, along with common rights to use the entrance, passage, lift and staircase (the said property). Any person or persons having or claiming any right, title, interest, share or claim of any nature whatsoever, whether by way of inheritance, succession, sale, gift, exchange, mortgage, charge, lien, lease, tenancy, licence, trust, possession, agreement, family arrangement, attachment, decree or otherwise howsoever, in, to or against the said property or any part thereof, should send their claims in writing to the undersigned along with documentary evidence in support of the said claim thereof within 15 days of publication of this Notice, failing which the claims, if any, shall be deemed to have been waived and/or abandoned, and the proposed purchase shall be completed without reference to any such claim.
 Dated: 20.05.2026
 Place: New Delhi

Sangram Chinnappa
 Advocate
 Address: 511, Prospect Chambers,
 D. N. Road, Fort, Mumbai - 400001.
 Contact No. 9028566747

Bandhan Bank
 बंधन बैंक लिमिटेड
 सी.आई.एन. L67190WB2014PLC204622
 पंजीकृत कार्यालय:
 डी.एन. 32 सेक्टर-V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

गिरवी रखी गई संपत्तियों - सोने के गहनों और सिक्कों - की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	शाखा पता
1	उत्तराखंड	हल्द्वानी	बनोरी तहसी बंदोबस्ती, साई हॉस्पिटल और तिवारी मेटरिअल हॉस्पिटल के बीच, मुखानी चौराहा के पास, हल्द्वानी, उत्तराखंड, पिन- 263139
2	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	जेएफडी कॉम्प्लेक्स, देवी रोड, खाला नंबर 30, गांवा सीताबपुर, तहसील कोटद्वार, जिला. गढ़वाल, राज्य, उत्तराखंड, पिन- 246149
3	उत्तराखंड	रूद्रपुर	केएल स्क्वायर, डी1-डी2 13, गार्ड-13, कस्तुरी बाईपास रोड, पी.ओ.- रूद्रपुर, जिला- उदम सिंह नगर, उत्तराखंड, पिन- 263153

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि सोने के गहनों (जिनमें इसके बाद 'संपत्तियां' कहा जाएगा) की नीलामी जैसा है, जहाँ है के आधार पर की जाएगी। वे सोने के गहने/सिक्के, नीचे उल्लिखित उपकरण/उपकरणों द्वारा, उक्त सोने की वस्तुओं को गिरवी रखकर प्राप्त की गई ऋण सुविधा के संबंध में, बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं।

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	ग्राहक का नाम	खाला संख्या	नेट वेट
1	उत्तराखंड	हल्द्वानी	मोहम्मद आदिल	90001429635214	13.10
2	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	शबीना	90001521088740	5.55
3	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	सफाज अहमद	90001531227694	25.30
4	उत्तराखंड	रूद्रपुर	अमित कुमार गुमा	90001363830459	11.20

ध्यान दें: आगे की शर्तों और नियमों के लिए, कृपया बैंक के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
 नीलामी की तिथि: इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 31 दिनों

BLS E-SERVICES LIMITED
 E-SERVICES
 CIN: L74999DL2016PLC298207

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
 Corp. Office: Plot no. 865, Udyog Vihar, Phase V, Gurugram, Haryana-122016, INDIA
 Tel. No.: 011-45795002, Email: cs@blseservices.com; Website: www.blseservices.com

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

Figures represent Q4 FY25-26

+34.1% Rs. 328.88 Crores TOTAL INCOME	+2.2% Rs. 25.97 Crores *EBITDA	+5.4% Rs. 18.24 Crores PAT
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------

Figures above depict year on year comparison
 Management Discussion & Analysis of Results

1 Total Income stood at Rs. 328.88 crores in Q4FY26 as compared to Rs. 245.20 crores in Q4FY25 registering a growth of 34.1% YoY.
 2 EBITDA increased by 2.2% YoY to Rs. 25.97 crores in Q4FY26 from Rs. 25.42 crores in Q4FY25. *EBITDA includes Other Income
 3 Profit after tax grew by 5.4% YoY to Rs. 18.24 crores in Q4FY26 from Rs. 17.31 crores in Q4FY25.

Consolidated financial results:- (Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
	March 31, 2026 (Refer Note 7) Audited	December 31, 2025 Unaudited	March 31, 2025 (Refer Note 7) Audited	March 31, 2026 Audited	March 31, 2025 Audited
Total Revenue from operations	32,337.29	28,067.64	23,920.58	1,11,779.13	51,935.33
Net Profit for the period/year (before tax & exceptional items)	2,402.30	2,095.11	2,333.06	9,292.97	7,913.53
Net Profit for the period/year (after tax & exceptional items)	1,824.04	1,522.46	1,731.07	6,926.69	5,881.20
Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,847.17	1,497.07	1,749.04	6,924.43	5,895.50
Paid-up equity share capital (Face Value Re. 10/- each)	9,085.65	9,085.65	9,085.65	9,085.65	9,085.65
Earning per Share (EPS)(not Annualised) (in Rupees)					
(a) Basic	1.62	1.39	1.45	6.33	5.79
(b) Diluted	1.62	1.39	1.45	6.33	5.79

Notes:
 1. Key Standalone financial information is as under:- (Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
	March 31, 2026 (Refer Note 7) Audited	December 31, 2025 Unaudited	March 31, 2025 (Refer Note 7) Audited	March 31, 2026 Audited	March 31, 2025 Audited
Total Revenue from operations	2,606.39	2,257.34	1,569.27	8,734.68	6,682.57
Net Profit for the period/year (before tax & exceptional items)	613.70	552.92	288.65	2,351.76	3,669.78
Net Profit for the period/year (after tax & exceptional items)	454.28	405.57	216.32	1,746.62	2,744.45
Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	456.76	414.46	190.37	1,757.99	2,712.92
Paid-up equity share capital (Face Value Re. 10/- each)	9085.65	9085.65	9085.65	9085.65	9085.65
Earning per Share (EPS)(not Annualised) (in Rupees)					
(a) Basic	0.50	0.45	0.24	1.92	3.02
(b) Diluted	0.50	0.45	0.24	1.92	3.02

2. The above financial results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 18, 2026.
 3. These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015 (as amended).
 4. The equity shares of the Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on February 06, 2024. The Company has received an amount of Rs 30,929.29 lakhs being gross proceeds from fresh issue of equity shares. Net proceeds after issues expenses amounting to Rs. 27,776.93/- in relation to fresh issue are proposed to be utilized and the utilization thereof are summarized as below: (Rs. in Lakhs)

OBJECT(S)	Amount as proposed in the Offer Document	Alteration in the objects of the IPO for which the amount was raised*		Amount utilized upto March 31, 2026	Total unutilized amount upto March 31, 2026
		Revised Cost			
Strengthening our technology infrastructure to develop new capabilities and consolidating our existing platforms	9,758.71	(6,321.70)	3,437.01	1,715.32	1,721.69
Funding initiatives for organic growth by setting up of BLS Stores	7,478.30	(7,478.30)	-	-	-
Achieving inorganic growth through acquisitions	2,871.00	-	2,871.00	2,871.00	-
General Corporate Purpose	7,668.92	-	7,668.92	7,668.92	-
Acquisition of equity shares in Atyati Technologies Private Limited	-	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00
Total	27,776.93	-	27,776.93	12,255.24	15,521.69

IPO proceeds which were un-utilized as at March 31, 2026 were temporarily invested in term deposit amounting to Rs 15,516.00/- lakhs with scheduled bank and the balance amount lying in the Monitoring account.
 *Pursuant to the Audit Committee's recommendation, the Board of Directors in their meeting held on February 16, 2026 approved seeking shareholders' approval by way of an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") for change and variation in the objects of utilization of the IPO proceeds. The resolution was approved by the shareholders with the requisite majority at the EGM held on March 16, 2026.
 5. The Group has engaged in the business of "Digital Services" includes E-Governance, Business Correspondent, Loan Distribution and allied services and hence has one reportable operating segment as per Ind AS 108 - Operating Segments.
 6. The Board of Directors has recommended final dividend of Rs. 0.50/- per equity share of the face value of Rs. 10/- each. The payment of dividend is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting of the Company.
 7. The figures for the quarter ended March 31, 2026 and March 31, 2025 are the balancing figures between the consolidated audited figures in respect of the full financial year and consolidated unaudited figures up to nine months of the relevant financial year, which is subject to limited audit by statutory auditor.
 8. On November 21, 2025, the Government of India notified the four Labour Codes, consolidating 29 prior laws. The Ministry of Labour & Employment released draft Central Rules and FAQs to assess financial impacts. The Group has assessed and disclosed the incremental impact consisting of gratuity of Rs. 28.03 lakhs within the employee benefit expense. The Group continues to monitor the finalisation of Central / State Rules and clarifications from the Government on other aspects of the Labour Code and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments as needed.
 9. During the previous year, on 26 November 2024, the Company acquired 57% equity share capital of Aafidelis Solutions Private Limited (ASPL) and its 100% subsidiary Sai Finest Advisory Private Limited for a cash consideration of Rs. 7789 lakhs, subject to adjustments mutually agreed between the parties to the transactions. The above consolidated financial results for the year ended March 31, 2025 include the results of ASPL which was acquired on November 26, 2024 and hence not comparable with previous period.
 10. The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter & year ended March 31, 2026 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results is available on the website of Company at link-https://blseservices.com/uploads/files/Financial_Results_for_quarter_and_year_ended_March_31_2026.pdf and is also hosted on Stock Exchange websites (i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इण्डियन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
 ई-नीलामी विक्री सूचना

सम्पति 1 - कर्जदारों के नाम : श्री प्रेम राज मीना (आवेदक),
 ऋण सं.: 310700001497

सम्पति का विवरण

सम्पूर्ण सम्पति का विवरण:- यूनिट नं. एस-02, एसएफ, फाइव स्टार मेशन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. ए-23, आनन्द विहार रेलवे कॉलोनी, अलवर, राजस्थान-301001

मांग सूचना की तिथि: 30.01.2019
 मांगकृत राशि: रु. 37,82,752.38 तथा भावी ब्याज, लागत एवं व्यय

कच्चे की तिथि (पी): भौतिक कच्चा - 29.10.2020
 आरंभित मूल्य: रु. 23,10,000/- (रुपये तेईस लाख दस हजार मात्र)

इंफॉर्मेशन: रु. 2,31,000/- (रुपये दो लाख इकतीस हजार मात्र)

20.05.2026 तक कुल देय राशि:- रु. 1,04,37,267.69 (रुपये एक करोड़ चार लाख सैंतीस हजार दो सौ सड़सठ और उन्हत्तर पैसे मात्र)

सम्पक व्यक्ति: श्री अविनव कुमार
 सम्पक विवरण: मो.: 9434115454

सम्पति 2 - कर्जदारों के नाम : श्री सुरेश कुमार यादव (आवेदक),
 ऋण सं.: 310700001613

सम्पति का विवरण

सम्पूर्ण सम्पति का विवरण:- प्लॉट नं. एफ/01, एक आवासीय बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्थित, प्लॉट नं. डी-78/ए, हसन खान, मेवाती नगर, अलवर, राजस्थान-301001 पर स्थित

मांग सूचना की तिथि: 30.01.2019
 मांगकृत राशि: रु. 33,17,668.98 तथा भावी ब्याज, लागत एवं व्यय

कच्चे की तिथि (पी): भौतिक कच्चा - 29.10.2020
 आरंभित मूल्य: रु. 19,42,000/- (रुपये उन्नीस लाख बचालीस हजार मात्र)

इंफॉर्मेशन: रु. 1,94,200/- (रुपये एक लाख चौरानवे हजार दो सौ मात्र)

20.05.2026 तक कुल देय राशि:- रु. 91,48,464.36/- (रुपये इक्यान्वे लाख अड़तीस हजार चार सौ चौंसठ और छत्तीस पैसे मात्र)

सम्पक व्यक्ति: श्री अविनव कुमार
 सम्पक विवरण: मो.: 9434115454

संपत्ति दस्तावेजों की फोटोकॉपी के निरीक्षण की तिथि एवं समय:-
 दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु संपत्ति का पता:-
 18.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप. के बीच
 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इण्डियन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

संपत्ति का निरीक्षण: 18.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.

सेवा प्रदाता से ई-नीलामी के सम्पक विवरण:
 ई-नीलामी सेवा प्रदाता का पता, डीएसि व्यक्ति का नाम, ईमेल और सम्पक विवरण:- मेसर्स 4 क्लोजर: वेबसाइट का नाम: <https://bankauctions.in> तथा www.foreclosureindia.com, निजी वेबसाइट: Oix.in; कार्यालय ईमेल: info@bankauctions.in; कार्यालय का पता: मेसर्स 4 क्लोजर, # 605 ए, छठी मंजिला, मैत्रीवन, एचएमडीए, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038, तेलंगाना; हेल्पलाइन डेस्क: लैडलाइन: 040-23736405 वा 814200062/66; टी. जवा प्रकाश रेड्डी, प्रबंधक - संचालन, मोबाइल नंबर: 8142000064, ईमेल आईडी: prakash@bankauctions.in

ऑनलाइन निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथि: तिथि और समय:- 20.06.2026 को 5:00 बजे अप. तक

ई-नीलामी की तिथि: नीलामी की तिथि और समयवधि:- 22.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 2:00 बजे अप. तक

सभी नियम एवं शर्तें आधिकारिक वेबसाइट <https://online.lichousing.com/auaction/> पर अनुलग्नक 2 के रूप में उल्लिखित हैं।
 सरकारी अधिनियम 2002 के तहत 30 दिनों की वैधानिक विक्री सूचना हस्ता./-
 दिनांक: 20.05.2026 स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

JBM Group
 Our milestones are touchstones
जय भारत मारुति लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: पेंस सिटी II, मोहम्मदपुर झारसा
 खंडसा गांव के पास, सेक्टर-36 गुरुग्राम, हरियाणा- 122001
 फोन नं.: 011-26427104; फैक्स नं.: 011-26427100; वेबसाइट: www.jbmgroup.com
 CIN No. L29130HR1987PLC130020

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिये अंकेषित परिणामों का विवरण (रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		31/03/2026 को समाप्त तिमाही अंकेषित	31/03/2026 को समाप्त 12 महीने अंकेषित	31/03/2025 को समाप्त तिमाही अंकेषित	31/03/2026 को समाप्त तिमाही अंकेषित	31/03/2026 को समाप्त 12 महीने अंकेषित	31/03/2025 को समाप्त तिमाही अंकेषित
1.	प्रचलनों से कुल आय	76,697.57	2,55,391.21	61,128.57	76,697.57	2,55,391.21	61,128.57
2.	अवधि के लिये निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	5,531.80	14,716.74	2,914.25	5,625.00	14,958.20	3,046.27
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	5,531.80	14,716.74	2,914.25	5,625.00	14,958.20	3,046.27
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	7,885.79	13,786.25	1,960.25	7,959.11	13,967.43	2,056.17
5.	अवधि के लिये समग्र आय (लाभ/(हानि) शामिल करते हुए अवधि के लिए (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत)	7,409.34	13,925.02	2,072.29	7,484.86	14,107.68	2,165.90
6.	इन्विटी अंश पूंजी	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00
7.	आरक्षित पिछले वर्ष के अंकेषित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार	66,921.94	66,921.94	53,754.67	67,446.61	67,446.61	54,096.67
8.	प्रति शेयर आय (मूल्यक रु 2/-) (वार्षिकृत नहीं) (जारी और स्थगित प्रचालनों के लिये)						
	क) बेसिक	7.28	12.74	1.81	7.35	12.90	1.90
	ख) डाइल्यूटेड	7.28	12.74	1.81	7.35	12.90	1.90

नोट:
 क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाजारों के पास दायर किये गये 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रप्रत का सार है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रप्रत शेयर बाजारों NSE, BSE की वेबसाइटों, www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।
 ख) 19 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026 के लिए 35% अर्थात रु. 0.70 प्रति शेयर (प्रत्येक रु 2/- के पुर्ण प्रदत्त इन्विटी शेयर पर) के लामांश की सिफारिश की है।

स्थान: गुरुग्राम
 दिनांक: मई 19, 2026

कंपनी की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
 कृते जय भारत मारुति लिमिटेड/
 हस्ता./-
 एस. के. आर्य
 अध्यक्ष

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इण्डियन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
 ई-नीलामी विक्री सूचना

जबकि अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी। किन्तु, कर्जदार/बंधककर्ता कथित वक्राया राशि को चुकाने में विफल रहे, अतः अयोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों पर भौतिक कच्चा (पी) कर लिया है।

यह सूचना आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटर्स को दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति एलआईसी एचएफएल के पास बंधक रखी गई है, जिसका कच्चा एलआईसी एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है तथा इसे नीलामी की तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के आधार पर तथा आश्रय रहित नीचे दिए गए सक्षिप्त विवरण के अनुसार बेचा जाएगा।

सम्पति 1 - कर्जदारों के नाम : श्री प्रेम राज मीना (आवेदक),
 ऋण सं.: 310700001497

सम्पति का विवरण

सम्पूर्ण सम्पति का विवरण:- यूनिट नं. एस-02, एसएफ, फाइव स्टार मेशन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. ए-23, आनन्द विहार रेलवे कॉलोनी, अलवर, राजस्थान-301001

मांग सूचना की तिथि: 30.01.2019
 मांगकृत राशि: रु. 37,82,752.38 तथा भावी ब्याज, लागत एवं व्यय

कच्चे की तिथि (पी): भौतिक कच्चा - 29.10.2020
 आरंभित मूल